

## दो करोड़ का नकली सौंदर्य प्रसाधन व सैनिटाजर बरामद, ज्यादातर माल ब्यूटी पार्लर पर होता था सप्लाई

- हिंदी न्यूज़
- / उत्तर प्रदेश
- / सहारनपुर

Publish Date: Mon, 22 Jun 2020 01:28 AM (IST)



कोतवाली नगर पुलिस ने नखासा बाजार में छापा मारकर सौंदर्य प्रसाधन व सैनिटाइजर बनाने का नकली माल बरामद कर लिया।

**सहारनपुर, जेएनएन।** कोतवाली नगर पुलिस ने नखासा बाजार में छापा मारकर सौंदर्य प्रसाधन व सैनिटाइजर बनाने का नकली माल बरामद कर लिया। मुख्य आरोपित की निशानदेही पर उसी के घर से संचालित फैक्ट्री पकड़ी गई और करीब दो करोड़ रुपये का माल बरामद हुआ। फैक्ट्री से दो नौकर भी गिरफ्तार किए गए, जबकि फैक्ट्री स्वामी का बेटा तथा भांजा फरार हो गए। इस फैक्ट्री से ज्यादातर माल जिले के सभी ब्यूटी पार्लर पर सप्लाई होता था।

कोतवाली नगर में पत्रकारों से वार्ता करते हुए एसपी सिटी विनीत भटनागर ने बताया कि इंस्पेक्टर राकेश कुमार ने अपनी टीम के साथ शनिवार शाम नखासा बाजार से एक व्यक्ति को पकड़ लिया। उसके कब्जे से सौंदर्य प्रसाधन व सैनिटाइजर का नकली माल बरामद हुआ। थाने लाकर पूछताछ की तो आरोपित ने अपनी पहचान नदीम शम्सी पुत्र तकी शम्सी निवासी पक्का बाग थाना मंडी के रूप में बताई। माल बरामद कराने के लिए नदीम पुलिस टीम को लेकर अपने घर पहुंचा, जहां नकली सामान तैयार करने की फैक्ट्री चल रही थी। पुलिस टीम के साथ ड्रग इंस्पेक्टर भी मौजूद थे।

मौके से नदीम के दो नौकर दानिश शेख पुत्र नसीम शेख निवासी मुन्नीबान थाना कोतवाली नगर तथा सोनू अंसारी पुत्र रफीक अंसारी निवासी मोहल्ला बंजारों का पुल पकड़ा गया। दानिश की उम्र करीब 63 साल है, जो लंबे वक्त से काम कर रहा था। हालांकि नदीम का बेटा अहमद रजा तथा भांजा फरहान अख्तर फरार हो गया। एसपी सिटी ने बताया कि फैक्ट्री से करीब छह ड्रम में क्रीम, पाउडर, आई लाइनर, वेश वॉश, स्क्रब आदि का कच्चा माल बरामद हुआ जबकि छह बोरे में तैयार माल मिला। इसेक अलावा भारी मात्रा में सैनिटाइजर भी मिला। इस माल को नामचीन कंपनियों की पैकिंग में भर कर सप्लाई कर दिया जाता था। बरामद माल का मूल्य करीब दो करोड़ रुपये आंका गया है। तीनों आरोपितों को जेल भेज दिया है।

### जिले के सभी ब्यूटी पार्लर में होता था सप्लाई

इंस्पेक्टर आरके सिंह ने बताया कि शुरुआती पूछताछ में फैक्ट्री स्वामी नदीम ने बताया कि वह पिछले चार साल से इस धंधे को कर रहा था। जिले के ज्यादातर ब्यूटी पार्लर में उसका माल सप्लाई होता था। शहर के कुछ ब्यूटी पार्लर संचालक तो माल की हकीकत से वाकिफ थे लेकिन ज्यादातर असली समझ कर ही खरीदते थे। जो ब्यूटी पार्लर संचालक जानबूझ कर नकली माल इस्तेमाल कर रहे थे, उन पर भी कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। पुलिस टीम में इंस्पेक्टर आरके सिंह, एसएसआई अनिल कुमार, चौकी इंचार्ज रघुराज सिंह, ड्रग इंस्पेक्टर संदीप कुमार, सिपाही सम्मट, मंजीत सिंह तथा अर्जुन कुमार शामिल थे।